

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	साअधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	श्रावण 29, मंगलवार, शाके 1941-अगस्त 20, 2019 <i>Sravana 29, Tuesday, Saka 1941-August 20, 2019</i>	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

**नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।**

अधिसूचना

**जयपुर, अगस्त 19, 2019**

**संख्या 1115/एमपी(ई)/आबू रोड:-**राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 5 की उपधारा(1) के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.06.2012 द्वारा अधिसूचित आबू रोड मास्टर प्लान-2025 में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में खसरा संख्या 478, 479, 480, 585/1, 586, 587/1 व 588 की भूमि को नदी सीमा से 30 मीटर वृक्षारोपण रखते हुए एवं गैर परिशोधित जल एवं मल का निस्तारण नदी में नहीं किये जाने की सुनिश्चितता की शर्त के साथ आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित कर प्रस्तावित भू-उपयोग योजना का संशोधित मानचित्र आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है।

उक्त संशोधन के संबंध में दिनांक 19.08.2019 से दिनांक 18.09.2019 तक की समयावधि में कोई भी व्यक्ति/संस्था/विभाग अपने आपत्ति/सुझाव कार्यालय मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, नगर नियोजन भवन, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर, नगर विकास न्यास, आबू रोड अथवा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तावित संशोधन दर्शाते हुए मानचित्र के प्रारूप को उक्त समयावधि में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नगर विकास न्यास, आबू रोड में देखा जा सकता है तथा इस की प्रति नगर विकास न्यास, आबू रोड से क्रय की जा सकती है।

आर.के.विजयवर्गीय,

**मुख्य नगर नियोजक**

**राजस्थान, जयपुर।**